



आप वहन करने योग्य हेल्थकेयर के लिए पात्र हैं

NY State of Health आपका खर्च कम करने के लिए सही प्लान और वित्तीय सहायता खोजने में आपकी वैयक्तिकृत सहायता प्रदान करने के लिए यहाँ है।

NY STATE OF HEALTH पर आपको ये मल्लिगा

- 1 कई वहन करने योग्य गुणवत्तापूर्ण हेल्थ प्लान
- 2 आपका प्लान ढलिवाने में वैयक्तिकृत सहायता
- 3 आपके द्वारा चुने गए प्लान के लिए भुगतान करने में सहायता
- 4 कम आय वाले व्यक्तियों के लिए The Essential Plan (एसेशियल प्लान)

साइन अप करना सरल है! अपने परिवार के हर सदस्य की नमिन् जानकारी रखना

- ✓ जन्मतथियाँ
- ✓ सामाजिक सुरक्षा नंबर या कानूनी अप्रवासियों के लिए, दस्तावेज़ संख्या यदि उपलब्ध हो तो
- ✓ रोजगार, आय रिकॉर्ड और स्वास्थ्य बीमा जानकारी



आज ही नामांकन कर

1-855-355-5777 या
TTY: 1-800-662-1220

nystateofhealth.ny.gov
मुफ्त व्यक्तिगत सहायता

THE ESSENTIAL PLAN (द एसेंशियल प्लान)

The Essential Plan (एसेंशियल प्लान), कम आय वाले कई न्यूयॉर्क वासियों के लिए उपयुक्त है।

कुछ लोगो के लिए इसका खर्च एक डॉलर प्रतिदिन से भी कम होता है। अन्य के लिए, कोई भी खर्च नहीं होता है।

और यह कोई समस्या नहीं है, इसलिए प्लान आपकी हेल्थ केयर के लिए तुरंत भुगतान करना शुरू कर देता है।

THE ESSENTIAL PLAN (एसेंशियल प्लान) समान गुणवत्ता वाले लाभ प्रदान करता है जैसे कि अन्य हेल्थ प्लान करते हैं



डॉक्टर वजिटि जसिमे वशिषज्ज वजिटि शामिल है।



आपके डॉक्टर द्वारा लखि गए टेस्ट



लखि गई दवाइयाँ



अस्पताल में भरती मरीज और अस्पताल के बाहर मरीज का इलाज

Essential Plan (एसेंशियल प्लान) के तहत, प्रत्येक स्वास्थ्य सेवा के लिए आप जो भुगतान करते हैं — आपका सह-भुगतान — भी बहुत कम होता है। और कई बार, यह \$0 भी होता है।

और आपको नविरक सेवाओं के लिए कुछ भी भुगतान नहीं करना होता है, जैसे नियमि चकित्सा परीक्षा और स्क्रीनिंग।



The Essential Plan (एसेंशियल प्लान) के लिए आज ही साइन अप करें। **नामांकन वर्ष भर चालू रहते हैं।**